

यदि आप अपने यूनिट में रह गये हैं

अपने आपको धुआँ से बचायें। उद्धार होने तक या जब तक न कहा गया हो। तब तक अपने यूनिट में ही रहें। इस में काफी समय लग सकता है। अलार्म सुनई देने के काफी देर बाद यूनिट छोड़ने का प्रयत्न न करें। जितना देर तक आप इंतज़ार करेंगे उतना ज्यादा कोरिडोर और सीढ़ियों में धुआँ फैलने का खतरा रहता है। आपके जीवित निकलने का संभावना कम हो जाता है।

- धुआँ को अपने यूनिट में घुसने से रोकें। दरवाज़े के चारों ओर के दरारोंको डक्ट टेप से सिल करें और दरवाज़े के निचले हिस्से पर भीगा तौलिया रखें। जैसे ही अन्य छिद्र या हवा नलियों को सिल करें।
- यदि धुआँ आपके यूनिट में घुस गया है :
 - फायर सर्विसेस डिपार्टमेंट को कॉल करें। आप कहाँ हैं बतलायें और धुआँ मुक्त कमरे में जायें, दरवाज़ा बंद रखें और टेप व तौलिया से सिल करें। खिड़कियोंको ताज़ी हवा के लिये खोलें।
 - अपने उद्धारक को दिखाई देने के लिये कोई भी कपड़ा को खिड़की से लटकें या हिलायें।
 - निचे फर्श पर ही रहे जहाँ हवा शुद्ध होता है।
 - अधिकारियों का निर्देशन अच्छी तरह सुनें।

याद रखें, आग से सुरक्षा आप से शुरू होती है

- अपने भवन की लेआउट से परिचित रहें।
- पहले से ही बहिर निकलने के रास्तों और दिशाओं से परिचित हो जायें और कभी आवश्यक पड़ने पर घर खाली करने के लिये हमेशा तयार रहें।
- अपने परिवार के साथ विस्तृत आपातकालीन बच निकलने का रास्ता तयार करें और आग लगने की स्थिति में बैठक स्थल का प्रबंध करें।



फायर सर्विसेस डिपार्टमेंट

आगके खतरों के बारे में कोई जानकारी चाहियें या शिकायत हो तो कृपया नीचे दिये गए नम्बर कॉल करें

2723 8787

या कोई भी फायर स्टेशन पे संपर्क करें।



आग को रोकिए

आग लगने की स्थिति में क्या करें

आग लगने कि स्थिति में क्या करें

आग से सुरक्षा आप से शुरू होती हैं

आपके घर में यदि आग लग जाये तो क्या करना चाहिये, यह जानिये | ये अपने आपको और औरों को बचाने का सबसे बेहतरीन उपाय है |

हर आग भिन्न होती है | जब आपको अलार्म सुनाई दें या आग लगने क पता चले तो शीघ्र कुछ कदम चालना चाहिये | अपने आपको हमेशा धुआँ से बचायें | याद रखें, ज्यादातर लोग आग से नहीं बल्कि धुआँ से मरते हैं | आप को क्या करना चाहिये, नीचे दिया गया है |

आप के यूनिट में यदि आग लग जायें

- शान्त रहें |
- सभी को यूनिट छोड़ने के लिये बतलायें |
- यूनिट छोड़ने के पश्चात सभी दरवाज़े बन्द करें |
- अपने मंजिल का स्मोक अलार्म सक्रिय करें और "आग" "आग" कह कर चिल्लायें |
- भवन को छोड़ने के लिये नजदीकी सीढियों का प्रयोग करें |
- सभी किमती चीजों को लेने का प्रयत्न न करें
- जब आप सुरक्षित हो जायें तब "999" डायल कर के फायर सर्विसेस डिपार्टमेंट को कॉल करें |
- फायर ब्रिगेड वाले को सुरक्षित स्थान पर मिले और सभी स्थितियों को के बारे में बतला दें |



जब आपको स्मोक अलार्म सुनाई दें

आप जायें या रुके.....निर्णय आपको करना है |

ज्यादातर मामलों में भवन को जितना हो सके जल्दी छोड़ना ही बेहतर माना जाता है | परन्तु कुछ स्थितियों में आप भवन से बाहर नहीं निकल सकते हैं और आपको परिसर में ही रहना पड़ सकता है | परिस्थितियां कोई भी हो आपको जल्दी कदम उठाना चाहिये | आपका निर्णय जो भी हो, आपको हर हाल में धुआँ से बचना चाहिये |

यदि आपका निर्णय भवन को छोड़ने का है

अपने यूनिटके दरवाज़े जांचें | यदि दरवाज़े के निचल हिस्से से धुआँ आ रहा हो तो दरवाज़ा न खोलें, धुआँको अन्दर आने से रोकें, इसका तरीका इसी ब्रोशर में पीछे दिया गया है |

- यदि धुआँ न हो तो अपने आपको संभालिये और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलियें |
 - यदि आपको धुआँ दिखें या गर्मी महसूस हूयें तो तुरंत दरवाज़ा बंद करें और अपने आपको बचायें |
 - यदि कोरिडोर साफ हो तो बाहर जायें, दरवाज़ा बंद करे और नजदीकी सीढियों की तरफ जायें |

लिफ्ट का प्रयोग न करे

- नजदीकी सीढियों का दरवाज़ा सावधानी से खोले

यदि वहाँ धुआँ न हो तो उन्ही सीढियों से बाहर निकले |

- यदि वहाँ धुआँ हो तो भीतर न जायें | दरवाज़ा बंद कर दें और दुसरे सीढियों का दरवाज़ा सावधानी से खोलें |

- यदि वहाँ धुआँ न हो तो उन्ही सीढियों से बाहर निकले |

यदि वहाँ धुआँ हो तो भीतर न जायें | यदि वहाँ और भी सीढियाँ हो तो उन्हें आजमायें | यदि नहीं हो तो वापस अपने यूनिट में जायें और अपने आपको धुआँ से बचायें |



जब आप सीढियों में हो

- यदि आपको नीचे अपने रास्ते में धुआँ दिखाई दें तो तुरंत वह सीढ़ी छोड़ दें |
- यदि धुआँ से मुक्त अन्य सीढियाँ हो तो उनका प्रयोग करें |
- यदि आप कोई भी सीढियों का प्रयोग न कर सकें तो, हो सके तो आने यूनिट वापस लौट जायें या कोई भी कोरिडोर जायें और दुसरे यूनिट के दरवाज़े खटखटायें जब तक आपको आश्रय न मिल जायें |
- याद रखें, आप जहाँ भी हो यदि वहाँ धुआँ है तो नीचे जमिन पर रें | नीचे फर्श पर हवा शुद्ध होती है |

यदि आप शरण मंजिल पे पहुँच गये हैं

- यदि आप अस्वस्थ या थकित महसूस कर रहे हैं तो शरण मंजिल पर ठहर कर आराम करें | फायर सर्विसेस डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिये "999" डायल करें और यदि आपको कोई भी सहायता चाहिये तो आप कहें हैं बतलायें |
- यदि आप शरण मंजिल को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो सीढियों से निकलना बाहर जारी रखें और कृपया ऊपर दिए गए पैराग्राफों "यदि आका निर्णय भवन को छोड़ने का है" और "जब आप सीढियों में हो" में दिए गए कार्यविधियोंका अनुशरण करें |

